SANWARIA GROUP

CIN - L15143MP1991PLC006395

(Under Corporate Insolvency Resolution Process vide Order of Hon'ble NCLT dated 29.05.2020)

16th February, 2024

Bombay Stock Exchange Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Mumbai-400001.

BSE Scrip Code: 519260

National Stock Exchange of India Ltd.

Exchange Plaza, 5th Floor Plot No. C/1, G Block Bandra – Kurla Complex (BKC), Bandra (E) Mumbai-400051.

NSE Scrip Symbol: SANWARIA

Sub: Intimation under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations)

Dear Sirs,

Pursuant to Regulation 47 of the Listing Regulations, please find enclosed herewith copy of newspaper clippings containing the Unaudited Results for the Quarter ended on 31st December, 2023 published by the Company in Business Standard (English and Hindi) on 16th February, 2024.

The said newspaper clipping is also available on the website of the Company, www.sanwariaconsumer.com

This is for your information and record.

Thanking You

For Sanwaria Consumer Limited

Authorized Signatory

Highest-growing categories include toys, beauty products, furniture, and luggage

-commerce giant Amazon has said it surpassed \$8 billion in cumulative exports from India in 2023 and is set

▲ exports from India in 2023 and is set to achieve its ambitious target of \$20 billion in exports by 2025. The Seattle-headquartered company had achieved \$5 billion worth of exports in 2022.

We are really encouraged by the growth we have seen. We had crossed \$5 billion in exports in mid-2022 and we achieved \$8 billion by the end of 2023. We believe we are just getting started. The momentum is there, "Bhupen Wakankar, Director, Global Trade at Amazon India, told Business Standard.

Standard.

Amazon, which began exporting from India seven years ago, would have to more than double its exports by 2025 to meet its \$20 billion target.

This comes shortly after American retail

This comes shortly after American retail major Walmar said that it surpassed \$30 billion in cumulative sourcing from India in over two decades. It is now targeting \$10 billion in annual sourcing by 2027.

Talking about the competition, Wakankar said on Wednesday: "We are customer-obsessed and not competition-obsessed. More players coming in will benefit the seller ecosystem. We are all in this together."

Amazon's highest-prowing export cate-

this together."

Amazon's highest-growing export categories include toys, home and kitchen products, beauty products, furniture and luggage. Other products like leather goods and ayurveda products are also gaining traction, Wakankar sains.

The US remains Amazon's biggest market for Indian exports, besides markets like the UK, Canada, Japan, Germany, among others.

among others.

The company's flagship sale events in 2023 proved fruitful for exports from the country. 'Our sellers out of India participated in three large sale events. Prime Day in July, Prime Fall Day in October, and the Black Friday sale in November. Depending on the categories, we had anywhere between 40-70 per cent growth. Some categories witnessed 100 per cent year on year growth," said Wakankar. said Wakankar.

Amazon has, over the last year,

nnounced several partnerships with the central and state governments to give a fillip to exports. In November last year, it signed





memorandum of understanding (MoU)

Trade (DGFT), the Ministry of Commerce Trade (DGFT), the Ministry of Commerce and Industry too-create capacity-building sessions, training and workshops for MSMEs across 75 districts identified by the DGFT.

At the fourth edition of its flagship Smbhav Summit last August, the company signed an MoU with India Post for an integrated cross-border logistics solution to boost Indian exports. It was also among the first e-commerce companies to leverse the

boost Indian exports. It was also among the first e-commerce companies to leverage the Railways' Dedicated Freight Corridor (DFC) for faster delivery of products.

"In cross-border logistics, from India, we now have a full container and a partial container ocean offering. We have an air offering with multiple carriers now. So, we continue to build that side as well." Wakankar said, adding the company is focusing on improving list technology state.

"Market intelligence is an area that we continue to build nivest in a very big way, especiation."

continue to invest in a very big way, espe-cially when it comes to areas like machine learning, and generative AI," he said.

Firm reports 40% rise in sales of premium smartphone devices

-commerce major Amazon's sales of premium smartphone devices in 2023 jumped 40 per cent year-on-year (Y-o-Y) — one of its highest growth rates in India. Buyers were mostly from Tier-II cities, said a senior executive of Amazon.

SMIL A SCHIOU EXECUTIVE OF ATRIZONI.

"While per unit growth has been flat, we have grown in value more than in previous years. This is driven entirely by premium devices — above ₹30,000," Ranjit Babu, director, wireless and TV, Amazon India, told Business Standard.

Business Standard.

According to Babu, premium smartphone sales are primarily being fuelled by better financing options such as no-cost and low-cost equated monthly instalments (EMIs). "As much as 40 per cent of devices sold on Amazon last year were purchased through EMIs, especially during the fourth quarter (of CY 2023) amid festivals eason sales, "he said.

The company witnessed tis highest ever average selling price during last year's festivals season, Babu added. India's domestic smartphone market grew by a nominal I per cent in calendar year 2023 due to consumer demand remaining stressed, according to the

nominal per cent in calendar year 2023 due to consumer demand remaining stressed, according to the data from International Data Corporation (IDC). Notably, salesofhigh-end devices are not limited to Terl- Cities. Consumers in Terl- Cities and beyond are driving most of the sales for premium smartphones. "Terl- Lities account for more than 70 per cent for our sales. Since our growth is being fuelled by the premium category, it means that premium devices are no longer limited to the top 10 cities in India," Babu said. Factors such assease of availability, these peed of delivery, wider selections, and easier financing options are enabling growth in these markets. The rapidly increasing demand for 5G devices too is a factor. "Over 70 per cent of what we sold last year, by units, was SG. This year we expect pricing to continue to go down on SC. In fact, 5G is going to be the biggest driver of adoption below 33,000," Babu said.

Babu said.
According to the IDC data, 79 million 5G According to the IDC data, 79 million 6G smartphones were shipped in 2023, with launches in the mass budget segment. The average sale price of \$G phones dropped to \$374, a decline of \$per cent V-o-V in 2023. Within the \$G smartphone shipments, the share of the budget segment (\$100-200) increased to 35 per cent from 22 per cent a yearago.

DIAL wants low-cost carriers to shift ops



Delhi Airport, India's largest, is advocating for low-cost carriers to relocate their flights to the upcoming Noida International Airport in Jewar and the smaller Hindon Airport in Ghazlabad. This move aims to allow Delhi Airport to concentrate on the high-margin business associated with handling flights from full-service airlines. Airport to Delhi Airport, India's largest, is

service airlines

service airlines.
At present,
Delhi Airport manages 8,554 scheduled flights per
week, with IndiGo,
a low-cost carrier,
representing
approximately 38.5
per cent of these
flights, according

to aviation analytics firm Cirium.

Cirium.

Noida Airport, situated about
70 kilometres away from Delhi
Airport, is scheduled to
commence operations by

During a conference call with investors on February 1, Saurabh Chawla, executive director of finance and strategy at GMR Airports Infrastructure, said, "Jewar, whenever it opens up,

will primarily be freight-oriented and cater to low-cost airline traf-fic. We encourage this traffic to flow from Delhi Airport to Jewar or to Hindon or to other regional airports, considering the mar-gins we earn from each pas-

senger." Chawla further added, "Our Chawla further added, "Our strategy focuses on capturing a higher share of the high-margin business associated with full-service airlines, both domestic and international."

te on gin sosociated with full-service airlines, both domestic and international. Delhi Airport is operated by Delhi International International International

operated by Deini International Airport (DIAL), a GMR Group-led entity. Noida Airport is under construction by Yamuna

International Airport Private (YIAPL), a Zurich airport subsidiary. Hindon Airport, managed by the government-run Airports Authority of India, currently handles a few flights from regional carriers like Star Air.

tar Air.
DIAL, YIAPL, IndiGo, Air India, AIX Connect, SpiceJet, Vistara, and Akasa Air did not respond to queries from Business Standard on this matter. Full-service carriers typically

operate larger aircraft such as the B777 and A350, generating more revenue for airports through higher landing fees and other charges. Additionally, airports earn a higher margin per full-service passenger due to premium services like high-end retail, lounges, and amenities. Last month, aviation consultancy firm CAPA India noted that the competition between Delhi and Noida airports is expected to be intense, driven in part by the difference in value-added tax (VAT) on aviation tur-

added tax (VAT) on aviation tur

added tax (VAT) on aviation tur-bine fuel (ATF).

Delhi Airport's VAT is 25 per cent for domestic flights, while it will be only 4 per cent at Noida Airport. ATF constitutes about 40 per cent of the total cost for an airline in India.

However, Chawla empha-sized that airport success is not

However, Chawla emphasised that airport success is not solely dependent on varying VAT rates on ATr. He high the major service of the underlying community that the underlying community that the airport serves, saying. "The mere fact that there's an ATF difference really doesn't mater much. It is the underlying passenger, the quality of passenger, the income strate of the passenger, and the growth potential that this particular airport will prothis particular airport will pro-vide in the near term that is far more important."

#BSMorningShow

🖾 NSE NOTICE

Nifty50

RAMINFO LIMITED

Regd. Off: 3-225/SHI401, 4th Floor, Sterling Heights, Mahindra Mind:
GB PET Phase 2, Hyderabad - 500033, Telangana
CIN: L72200TG1994PLC017598

EXTRACT OF UNAUDITED FIN	ANCIAL RES	SULTS FOR	THE QUARTI	ER AND NINE	MONTHS E	NDED				
	31st	31st DECEMBER, 2023								
		STANDALONE		CONSOLIDATED						
PARTICULARS	Quarter Ended 31.12.2023 Un-Audited	Nine Months Ended 31.12.2023 Un-Audited	Quarter Ended 31.12.2022 Un-Audited	Quarter Ended 31.12.2023 Un-Audited	Nine Months Ended 31.12.2023 Un-Audited	Quarter Ended 31.12.2022 Un-Audited				
Total Revenue from Operations	2,082.83	5,715.59	2,093.77	2,082.83	5,715.59	2,096.43				
(before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	322.99	958.21	280.90	333.37	950.17	276.89				
(after exceptional and/or extraordinary items)	322.99	958.21	280.90	333.37	950.17	276.89				
Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	231.50	598.73	209.20	246.76	595.42	205.31				
Total comprehensive income for the period [comprising profit after tax and other comprehensive income(after tax)]	fter tax and		210.30	251.62	595.21	206.40				
Paid up Equity Share Capital (Rs.10/- per equity share)	67.14	67.14	67.14	67.14	67.14	67.14				
Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the balance sheet of previous year ended)	3,092.35	3,092.35	1,692.62	3,041.51	3,041.51	1,967.47				
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (Not annualised):										
a) Basic (in Rs.)	3.45	8.92	3.12	3.68	8.87	3.06				
b) Diluted (in Rs.)	3.45	8.92	3.12	3.68	8.87	3.06				
	PARTICULARS Total Revenue from Operations Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extracordinary Items) Net profit for the period before tax (after exceptional and/or extracordinary Items) Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extracordinary Items) Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extracordinary Items) Total comprehensive income for the period (comprehensive income) Part (after 10-dec) Reserves (excluding revaluation Reserves (excluding revaluation period (premiser) Examings Per Share (of Rs. 10- each) (Not atmissibed): a) Basic (in Rs.)	2015 2016	PARTICULARS	STANDALONE STA	STANDALONE	STANDALONE				

otes: he above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with BSE Limited under Regulation 33 of SEBI (Listir bilgations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available or onpany's website in tww.raminfo.com and SSE Limited verbeite i.e., www.bsoinfa.com.

SANWARIA CONSUMER LIMITED Bitta

L15143MP1991PLC006395 | Registere
n Market, Bhopal (M.P.) -462016 | Tele

IIN.AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR PERIOD ENDED ON 31ST DECEMBER 2023

									(Rs. In Lacs)
Т				Star	ndalone			Consolidated	
	Particulars		Quarter Ende	d		Year Ended		Period Ended	Year Ende
		31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023	31.12.2023	31.03.202
		Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Audited	Un-audited	Audited
1.	Revenue from operations	26.49	26.37	26.57	79.98	81.82	108.39	79.98	108.39
2.	Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax	-110.96	-161.74	-138.91	-402.74	-385.54	-501.56	-506.54	-640.53
	Exceptional and or Extraordinary items)								
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (After	-110.96	-161.74	-138.91	-402.74	-385.54	-501.56	-506.54	-640.53
	Exceptional and or Extraordinary items)								
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (After	-110.96	-161.74	-138.91	-402.74	-385.54	-422.17	-506.54	-561.14
	Exceptional and or Extraordinary items)								
5.	Total Comprehensive Income for their period (computing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Profit/(Loss) for their period (after tax) and other								
	comprehensive Income (after Tax)								
6.	Paid-up equity share capital (Face Value of Rs. 1 Each)	7361.00	7361.00	7361.00	7361.00	7361.00	7361.00	7361.00	7361.00
7.	Reserve Excluding Revaluation Reserves (As Shown in the						-69434.94		- 69723.3
	audited Balance Sheet of Previous Year)								ĺ
8.	Earnings Per Share (after extraordinary items)								
Т	(a) Basic								
_	ALDELA I								





In focus

Can Paytm Payments Bank be rescued?



Today's Special

Will price cuts make electric cars zoom?



Get the answers in today's episode Visit mybs.in/MorningShow

Market Insight

Is the rally in LIC stock nearing its end?

BEST BUSINESS PROGRAMME (GOLD) at afaqs! 'The Future of News' Awards

≝Business Standard

Mon - Fri | 8am





business-standard.com

संचय फिनवेस्ट लिभिटेड सीआईएन : एल67120एमपी1991पीएलसी006 पंजी. कार्यालय पता : 209, रजनी भवन, 569 एम.जी. रोड, इन्दौर मध्य प्रदेश 452001 आईएन र्स-मेल : 509, रुगार नियम, 309 रुगारा, हु रुगार नियम अवस्य ४,2200 ई-मेल : sanchay@gmail.com वेबसाइट : www.sanchayfinvest.in, फोन : 2620 5500, 2671 6288 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

पृथक्कृत (लाख में) नौ माह समाप्त -12-202 -12-2023 चालनों से कुल आय (शुद्ध) 8.31 35.40 44.31 42.87 45.95 46.8 विधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अपवाद तथा) (4.55) 24.05 39.49 6.70 25.5 23.19 ावधि हेतु शुद्ध लाभ ⁄ (हानि) कर से पहले अपवाद तथा / अथवा असाधारण मदों के बाद) (4.55 39.49 6.70 25.5 23.19 24.05 मविध हेतु शुद्ध लाम/(हानि) कर पश्चात अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद) (4.55) 24.05 39.49 6.70 25.5 23.19 प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू. 10/— प्रति इक्विटी शेयर) 315.00 315.00 315.0 315.00 315.0 315.0 संचेय (पूर्व वर्ष के तुलनपत्र में दर्शितानुसार पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर) 16.87 प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों से पहले) (रू. 10 / – प्रत्येक का) (0.15) 1.25 1.25 0.73 0.73 0.8 0.7 तनुकृत 0.21 प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों के बाद)

नोट्स:
1) पूर्व वर्ष / अवधि के आंकड़े, जहां आवश्यक है, पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं।
2) सेवी (सूवीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अधेशाएं), 2015 के विनियम 33 के अनुसार प्रकाशित उपरोक्त परिणाम लेखापरीक्षा समिति द्वारा पुनरीक्षित किए गए हैं तथा निदेशक मंडल द्वारा 14 फरवरी, 2024 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किए गए हैं। वित्तीय परिणाम जुराताता पर है वादा निर्माय के विद्या में करिया, 2025 और कम्पनीज (मारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2016 के नियम 7 वे कम्पनीज (मारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 और कम्पनीज (मारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली, 2016 के नियम 7 वे साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित अनुसार मारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) के अनुसार है कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा चालू तिमाही परिणामों का सीमित पुनरीक्षण किया गया है। 3) कम्पनी एक खंड में प्रचालन करती है और आईएनडी एएस—108 प्रचालन खंड के तहत खंड प्रकटीकरण किया गया है।

1.25

0.8 0.8

डीआईएन : 00794218

0.73

(0.15)

वास्ते संचय फिनवेस्ट लिमिटेड हस्ताः /— नरेश कुमार नंदलाल शर्मा स्थान : इन्दौर तिथि : 14—02—2024



(रू. 10 / — प्रत्येक का)

उत्कर्ष रमॉल फाइनेंस बैंक

आपकी उम्मीद का खाता

(एक अनुसूचित व्यावसायिक बेंक)

झोनल कार्यालय /शाखा रूपा सफॉयर, २१वां तल, प्लॉट सं. १२, सनपाड़ा रेलवे स्टेशन के सामने, वाशी, नवी मुंबई-४०० ७०५ पंजीकृत कार्यालय : उत्कर्ष टॉवर, एनएच-31, (एयरपोर्ट रोड), सेहमलपुर, काजी सराय, हरहुआ, वाराणासी, उ.प्र.-221 105

अचल संपत्ति के लिए कब्जा सचना

रत्तदद्वारा सूचित किया जाता है की वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 की धारा 13(12) के सहंपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्येक खाते के विरुद्ध वर्णित दिनाकों पर मांग सचना जारी करते हुए सचना में उल्लेखित देय राशि उक्त सचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर भगतान करने की मांग की गई है।

कर्जदार देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, एतद्द्वारा निम्न वर्णित कर्जदार और आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13(4) के सहपठित उक्त नियमावली के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के विरूद्ध वर्णित निम्न वर्णित संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और आम जनता को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के साथ किसी प्रकार का लेनदेन न करें और उनके द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का लेनदेन निम्न वर्मित प्रत्येक खाते के विरूद्ध देय रुपये और उस पर ब्याज सहित **उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक** लिमिटेड के अधीन होगा।

कर्जदारों का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में, प्रत्याभुत परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों पर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	शाखा का नाम	खाते का नाम	कर्जदार/गारंटर का नाम (संपत्ति का मालिक)	मांग सूचना की दिनांक	कब्जा सूचना की दिनांक	मांग सूचना की दिनांक अनुसार बकाया राशि
1	भोपाल	150905000 0000012	दिनेश कुमार लीखर (कर्जदार / बंधककर्त) नलिनी लीखर (सह–कर्जदार)	19-10-2022	14-02-2024	₹ 35,85,852.73/-

संपत्ति/यों का विवरण: संपत्ति स्थित फ्लैट सं. 201, एच आई जी, दुसरा तल, ब्लॉक-सी, अलार्क रेसीडंसी, वार्ड सं. -75, ग्राम—बड़वाई, पी.एच.सं. –5, तहसील—हुजूर, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश—462038 का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। संपत्ति का सीमांकन: पूर्व : सड़क, पश्चिम: कोरिडॉर, उत्तर : फ्लैट सं.222, दक्षिण: फ्लैट सं.202

दिनांक: 16/02/2024

स्थान : भोपाल

हस्ता./-(प्राधिकृत अधिकारी) उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

युनिइन्फो टेलीकॉम सर्विसेस लिमिटेड

सीआईएन : L64202MP2010PLC024569

पंजीकृत कार्यालय: 403, चेतक सेन्टर, 12/2 आरएनटी मार्ग, इन्दौर (म.प्र.)-452001, फोन नं. 0731-4208091 ईमेल आईडी : compliance@uni-info.co.in. वेबसाईट : www.uni-info.co.in

XTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER.

	(Rupees in Lakhs except EPS										
			Quarter Ende	d	Nine Mo	Year Ended					
No.	Particulars	31.12.2023		31.12.2022	OT. IZ.ZOZO	31.12.2022					
			Unaudited		Unau	Audited					
1	Total Income from Operations	1366.75	1513.98	745.07	4170.94	2359.01	3594.00				
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	7.96	38.66	(71.07)	88.56	(115.62)	76.62				
3	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	7.96	38.66	(71.07)	88.56	(115.62)	76.62				
4	Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	16.37	45.18	(63.62)	89.89	(104.93)	60.83				
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after Tax) and other comprehensive Income (after tax)	26.69	44.39	(56.08)	96.59	(78.17)	90.22				
6	Equity Share Capital (Face value of Rs.10/-)	1069.31	1069.31	1069.31	1069.31	1069.31	1069.31				
7	continuing and discontinued operations) -	0.15	0.42	(0.50)	0.84	(0.08)	0.57				
1	1. Basic:	0.15	0.42	(0.59)	0.04	(0.98)	0.57				
L	2. Diluted:	0.15	0.42	(0.59)	0.84	(0.98)	0.57				

Notes: 1. Standardie Financial information of the Company, pursuant to Regulation 47(1)(b) of SEBI LODK										
•			Quarter Ende	d	Nine Mon	Year Ended				
S. No	Particulars	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023			
-			Un-Audited		Un-A	Audited				
1	Turnover	1366.75	1513.98	746.93	4170.94	2363.19	3438.73			
2	Profit before Tax	23.82	39.72	(51.27)	106.49	(59.02)	7.35			
3	Profit After Tax	(131.41)	46.23	(43.82)	(55.80)	(48.32)	(8.44)			

Notes: 2. The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirments) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.nseindia.com and on the compan website www.uni-info.co.in

3. The above Un-Audited Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meeting held on 14th February, 2024. For and on behalf of the Board of Director

SD/- (KISHORE KUMAR BHURADIA)

Place : Indore (M.P.) Date :- 14.02.2024

CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR DIN: 03257728

SANWARIA CONSUMER LIMITED Website: www.sanwariaconsumer.com, Email Id: compliance@sanwariaconsumer.com

(Under Corporate Insolvency Resolution Process vide Order of Hon'ble NCLT dated 29.05.2020) CIN: L15143MP1991PLC006395 | Registered Office: Office Hall No.1, 1st Floor, Metro Plaza Bittan Market, Bhopal (M.P.) -462016 | **Telephone:** +91-755-4294878 Fax: +91-755-4295038

UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR PERIOD ENDED ON 31ST DECEMBER 2023

(Rs. In Lacs)										
				Consolidated						
	Particulars		Quarter Ended			Year Ended			Year Ended	
		31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023	31.12.2023	31.03.2023	
		Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un∙audited	Un-audited	Audited	Un-audited	Audited	
1.	Revenue from operations	26.49	26.37	26.57	79.98	81.82	108.39	79.98	108.39	
2.	Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax	-110.96	-161.74	-138.91	-402.74	-385.54	501.56	-506.54	-640.53	
	Exceptional and or Extraordinary items)									
3.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (After	-110.96	-161.74	-138.91	-402.74	-385.54	-501.56	-506.54	-640.53	
	Exceptional and or Extraordinary items)									
4.	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (After	-110.96	-161.74	-138.91	-402.74	-385.54	-422.17	-506.54	-561.14	
	Exceptional and or Extraordinary items)									
5.	Total Comprehensive Income for their period (computing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Profit/(Loss) for their period (after tax) and other									
	comprehensive Income (after Tax)									
6.	Paid-up equity share capital (Face Value of Rs. 1 Each)	7361.00	7361.00	7361.00	7361.00	7361.00	7361.00	7361.00	7361.00	
7.	Reserve Excluding Revaluation Reserves (As Shown in the						-69434.94		- 69723.31	
	audited Balance Sheet of Previous Year)									
8.	Earnings Per Share (after extraordinary items)									
	(a) Basic			-				-		
	(b) Diluted									

Notes:- (1) The Above Un-audited Results were reviewed by Audit Committee (headed by Independent Director) and taken on records at the meeting with Board of Directors (Suspended) held on 14.02.2024. (2) Figures are re-arranged and re-grouped wherever found necessary. (3) The Company is under CIRP since 29th May 2020 hence Commercial activities, specifically wareho leasing and job work are going on at Limited permitted level Under the Resolution Professional and Committee of Creditors. (4) The Company is engaged in FMCG Sector hence reporting its results in single segment. (5). The Un-audited Financial Results of the Company have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the

Companies Act, 2013 Place: Bhopal Date: 14.02.2024

AXIS BANK LIMITED

रिटेल लेंडिंग एण्ड पेमेंट ग्रुप (लोकल ऑफिस/शाखा) : स्टार आर्केड, प्लॉट नं. 165ए-166, प्रथम तल, एमपी नगर जोन 1, भोपाल मध्य प्रदेश, पिन-462011

मांग सचना

(प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम (3) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत)

जबकि, आपके अनरोध पर, बैंक के पक्ष में प्रतिभति हित बनाने वाली विभिन्न संपत्तियों के खिलाफ वित्तीय सहायता के माध्यम से समय-समय पर नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को विभिन्न क्रेडिट सविधार प्रदान की गई हैं। बैंक के पक्ष में प्रतिभृति हित सुजित करते हुए स्वामित्व विलेख जमा करने के माध्यम से आपके द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति (यों) का विवरण यहां नीचे दिया गया है। जैसा कि आप बैंक को देय ऋण का भुगतान करने में 🛱 विफल रहे हैं, आपके बातों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चुंकि पंजीकृत डाक द्वारा भेजी गयी बैंक को बकाया कर्ज चकाने की मांग सचना डाक विभाग की ओर से वापस कर दी गयी गयी थीं अत: यह सचना जारी की जाती है।

કારા	मणा गया बक का बकाया कण युकान का मांग सूचना डाक विमाग का जार से विपस कर दो गया गया	યા ઝતઃ ધ	ारु सूचना जारा का ज 	।ता रु।			
क्र. सं.	आवेदक⁄सह-आवेदक∕जमानितयों के नाम∕खाता सं.		देयता रुपयों ग	Ť	प्रस्तावित सम्पत्ति इक्विटेबल बंधक		
1	(1) अमित मिश्रा पुत्र आनंद जी मिश्रा (कजंदार) फ्लैट नंबर 103, पाइन सी स्प्रिंग वैली ह्यू कट भोपाल, मध्य प्रदेश, 462043 इसके अलावाः जीएच 942 दीन दयाल नगर ग्वालियर, मध्य प्रदेश, 4740 आनंद जी मिश्रा पुत्र मुकुंद जी मिश्रा (गारंटर 1) फ्ला नंबर 103, पाइन सी स्प्रिंग वैली ह्यू कटारा हिल्स मध्य प्रदेश, 462043, इसके अलावाः जीएच 942 दीन दयाल नगर ग्वालियर, मध्य प्रदेश, 474020, सबी, पता बाग, फ्रेंड्स कॉलोनी इटावा, इटावा, उत्तर प्रदेश, 206001, (3) शकुंतला मिश्रा पत्नी आनंद (सीसी कर्जदार/ बंधककर्ता 2) फ्लैट नंबर 103, पाइन सी स्प्रिंग वैली ह्यू कटारा हिल्स, भोप प्रदेश,462043, साथ ही : जीएच 942 दीन दयाल नगर ग्वालियर, मध्य प्रदेश, 474020, साथ ही : वी, फ्रेंड्स कॉलोनी, इटावा, उत्तर प्रदेश, 206001, इसके अलावाः (संपत्ति पता 1) मकान नंबर जी वार्ड नंबर 18, सेक्टर जी, डी.डी. नगर, तह. ग्वालियर जिला. ग्वालियर मध्य प्रदेश, 474012. ऋण खाता संख्याः 920030058925926 और 920030058925913 मांग सूचना दिनांकः 18/01/2024 एनपीए की तिथिः 01/11/2023	020।(2) त, भोपाल, ाथ ही : 2 र जी मिश्रा पाल, मध्य पट्टा बाग,	रु. 25,373.64/- एच्चीस हजार तीन तहत्तर और चौंसठ मात्र) और 55,14,129.30/- (पचपन लाख चौदह एक सौ उनतीस औ पैसे मात्र) 15/01//	सौ पैसे रुपये हजार तीस	2518.77 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाली आवासीय संपत्ति का समस्त भाग, मकान नंबर जीएच-942, वार्ड नंबर 18, सेक्टर जी, डी.डी. नगर, तहसील ग्वालियर जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश, 474012 में स्थित, शकुंतला मिश्रा एवी आनंद मिश्रा के नाम पर। सीमाएँ-पूर्वः जीएच-941 पश्चिम: जीएच-943 उत्तरः सड्क 40 मीटर चौड़ी दक्षिणः एचआईजी मकान जीएच 911 और 910		
2	(1) अय्यूव खान पुत्र हफीज खान (कर्जदार/बंधककर्ता) मिर्जा गालिब पथ, अहन मोहल्ला, बड़नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456771, (2) सईद खान पुत्र हफीज खान (बंधककर्ता/गारंटर 1) 33/28, मिर्जा गालिब पथ, बड़नगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456771 इसके अलावाः (संपत्ति पता 1) एन.पी. मकान नंबर 69 विश्वकर्मा पथ बड़नगर वार्ड नंबर 16 नगर बड़नगर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश। ऋण खाता संख्याः 918030008954456 एवं 918030008956698 मांग सूचना दिनांकः 18/01/2024 एनपीए की तिथिः 09/07/2023	रु.20,26 लाख छब्बं मात्र) ए (रुपये इव पचहत्तर ए	/01/2024 को ,290/- (रुपये बीस गिस हजार दो सौ नब्बे वं रु.91,175.76/- स्यानवे हजार एक सौ खं छिहत्तर पैसे मात्र)	मकान बड़नग् हफीज पश्चिमः मिजी दक्षिण	4 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले प्लॉट का समस्त भाग, एन.पी. नंबर 69 विश्वकर्मा पथ बड़नगर वार्ड नंबर 16 नगर ार जिला उज्जैन मध्य प्रदेश पर स्थित। अय्यूब खान पुत्र खान के नाम पर, सीमाएँ:-पूर्व दिशा: विश्वकर्मा पथ, इबीब का घर, अजीज का घर, गोविंद का घर उत्तरः गालिब पथ, हबीब का घर, अजीज का घर, मंदिर, गोविंद का घर।		
2	(4) 50	E 22.00	०००००/ (मारो	1425	ਰੂਸ਼ ਸੀਤ ਕੀ ਕਾਸਰੀਕ ਆਕਾਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਸ਼ਤ ਕਰ ਸਮਾਤ		

(1) दिनेश कमार सेन पत्र रामलाल सेन (कर्जदार) मकान नंबर 528 वार्ड नंबर 06, पेटोल पंप के बाईस लाख निन्यानबे हजार सामने बड़वानी रोड, अंजड़, बड़वानी, मध्य प्रदेश, 451556। (2) किस्मत सेन पुत्र रामलाल सेन भाग, प्लॉट नंबर 30 पर, सावरकर वार्ड नंबर 05, बडवानी-अट्ठासी और नवासी पैसे मात्र) ठीकरी मेन रोड, गांधी मार्ग रोड नंबर 1, नगर पंचायत अंजद् (गारंटर 1) मकान नंबर 528 वार्ड नंबर 06, पेट्रोल पंप, के सामने बड़वानी रोड, अंजड़, बड़वानी, मध्य एवं रु. 50,052.78/- (रुपये जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश, 451556 पर स्थित है। बाबूलाल प्रदेश, 451556। (3) गंगा बाई सेन पत्नी बाबुलाल सेन (बंधककर्ता/गारंटर 2) वार्ड नंबर 6 गांधी मार्ग पचास हजार बावन और सेन की पत्नी गंगा बाई सेन के नाम पर। सीमाएँ:-पूर्वः खार्द अंजड राजस्व क्षेत्र, अंजड तहसील अंजड जिला बडवानी, मध्य प्रदेश, 451556 इसके अलावा: (संपत्ति अठहत्तर पैसे मात्र) ग्रामोद्योग पश्चिमः गंगाबाई की भूमि उत्तर रोड दक्षिणः बड़वार्न पता 1) प्लॉट नंबर 30, सावरकर वार्ड नंबर 05, बड़वानी- ठीकरी मेन रोड, गांधी मार्ग रोड नंबर 1 15/01/2024 तक ठीकरी रोड नगर पंचायत अंजाद, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश, 451556

अद्राईस मात्र) (इस

राशि में 12-02-2023

15/01/2024 को

₹. 2046775.53/-(रुपये बीस लाख

छियालीस हजार सात

सौ पिचहत्तर एवं

तिरेपन पैसे मात्र)

सरकारी सड़क

और बाडा

ऋण खाता संख्या : 916030085298742 एवं 916030085298726 मांग सूचना दिनांक: 18/01/2024 एनपीए की तिथि: 01/11/2023 1-मैसर्स इरफान ट्रेडर्स इसके प्रोपराइटर श्री वाहिद खान पुत्र श्री चेतेर खान के माध्यम से पता-1) बस स्टैंड, 12-02-2023 को अचल संपत्ति के समस्त भाग का इक्विटेबल बंधक, पी.एच शिव मंदिर के पास, श्यामपुर सीहोर पिनकोड-466651, 1-मैसर्स इरफान ट्रेडर्स इसके प्रोपराइटर श्री वाहिद खान ₹. 17.52.828/-नंबर 22, सर्वे नंबर 192, 194, 196, 197, 198, 199/4/ के माध्यम से पुत्र श्री चेतेर खान पता- 2) पी.एच नं. 22, सर्वे क्रमांक 192, 194, 196, 197, 198, 199/4/1 राजस्व निगम मंडल -2, तहसील श्यामपुर जिला सीहोर (म.प्र.) (म.प्र.) में स्थित है। आकार-1800 वर्ग फीट। श्री बावन हजार आठ सं

चेतर खान पता-2) एच.एन.-216, मस्जिद मोहल्ला, मख्तार नगर, श्यामपर, सीहोर- 466651, 2-श्री वाहिद पर्व- मोर सिंह ठाकर पश्चिम:- कॉलोनी रोड 20 फीट उत्तर: खान पुत्र श्री चेतेर खान पता-3) पी.एच नंबर 22, सर्वे नंबर 192,194,196,197,198,199/4/1 राजस्व निगम राजा भाई का प्लॉट दक्षिण:- सरकारी भमि मंडल-2, तहसील श्यामपुर जिला सीहोर (मध्य प्रदेश) (सह-आवेदक/गारंटर) /बंधककर्ता) ऋण खाता संख्याः 920030005189056 मांग सूचना दिनांकः 15-दिसंबर-2023 एनपीए की तिथिः 16-11-2023 (1) कमलेश कुमार अवस्थी पुत्र सीताराम अवस्थी (कर्जदार) ग्राम सरबई पोस्ट सरबई, तहसील ₹.4.59.078.5/-मोजा-ब्रतरपर खसरा नं-410/2/2 कंप्यटर रिकॉर्ड खसरा र (रुपये चार लाख उनसठ 410/2/2/मिनट-7 पीएच. नं 51 रकवा 0.018 हेक्टेयर

गौरीहार, छतरपुर, मध्य प्रदेश, 471525. (2) सविता अवस्थी पत्नी कमलेश अवस्थी (बंधककर्ता/गारंटर 1) वार्ड नंबर 40, काली मंदिर के पार हजार अठहत्तर एवं पचास पैसे मात्र) और काली मंदिर, छतरपुर, मध्य प्रदेश, 471001 पर भीः (संपत्ति पता 1) मोजा-छतरपुर खसरा नंबर 23,09,809.73/- (रुपरे 410/2/2 कंप्यूटर रिकार्ड खसरा नं 410/2/2/मिन-7 पीएच. नंबर 51 रकवा 0.018 हेक्टेयर आरआई-तेईस लाख नौ हजार आठ छतरपुर मकान न0-414 वार्ड नंबर-39 चेतिगरी मार्ग नगर पालिका क्षेत्र छतरपुर तहसील एवं जिला नौ एवं तिहत्तर पैसे मात्र) छतरपर मध्य प्रदेश। 15/01/2024 तक ऋण खाता संख्या: 919030078788464 एवं 919030078788448

मांग सचना दिनांक: 18/01/2024 एनपीए की तिथि: 01/11/2023 (1) माहेश्वरी एंटरप्राइजेज (कर्जदार) 588 मेन रोड कुरावर, राजगढ़, मध्य प्रदेश, 465667. (2) चिराग महेश्वरी पुत्र गणेश महेश्वरी (सीओ कर्जदार/गारंटर 1) मेन रोड कुरावर मंडी, मकान नंबर 855, कुरावर मंडी, मध्य प्रदेश, 465667, (3) गणेश महेश्वरी पत्र बागवान दास महेश्वरी (सह-कर्जदार/गारंटर 2) माहेश्वरी इंटरपाइजेज, मेन रोड करावर मंडी, करावर, राजगर, मध्य प्रदेश, 465667, (4) पार्वती बाई (बंधककर्ता/गारंटर 3) मेन रोड कुरावर मंडी, माहेश्वरी इंटरप्राइजेज, कुरावर, मध्य प्रदेश, 465667 साथ ही: (संपत्ति पता 1) वार्ड नंबर 5, नगर कुरावर नगर परिषद कुरावर तहसील नरसिंह सर्वे नंबर 656/2, कुरावर, कालापीपल रोड,

राजस्व निगम मंडल-2, तहसील श्यामपर जिला सीहोर (मध्य प्रदेश) (कर्जदार) 2-श्री वाहिद खान पत्र श्री चेतेर

खान पता-1) बस स्टैंड, शिव मंदिर के पास, श्यामपुर सीहोर पिनकोड - 466651- 2-श्री वाहिद खान पुत्र श्री

नरसिंहगढ़, राजगढ़, मध्य प्रदेश, 465667. ऋण खाता संख्या: 922030032708345 मांग सचना दिनांक: 18/01/2024 एनपीए की तिथि: 04/11/2023 (1) मैसर्स ए आर टेडर्स (कर्जदार/बंधककर्ता) 01. सब्जी मार्केट, बारनगर, उज्जैन,

मध्य पदेश. 456771. (2) आमीन खान पत्र रज्जाक खान (प्रोपराइटर/गारंटर!) 11 महात्मा गांधी, मार्ग बारनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456771. (3) नईम पुत्र रजक (गारंटर 2) 11 महात्मा गांधी, मार्ग, बारनगर, उज्जैन. मध्य प्रदेश. 456771 साथ ही: (संपत्ति पता 1) कस्बा बड़नगर तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। साथ ही: (संपत्ति पता 2) मकान नंबर 22. वार्ड नंबर 1. सब्जी मार्केट

वाली गली, बड़नगर, जिला.उज्जैन, मध्य प्रदेश। ऋण खाता संख्या: 921030019570926 मांग सूचना दिनांक: 16/01/2024 एनपीए की तिथि: 28/11/2023

(1) राजेंद्र मेश्राम पुत्र स्वर्गीय नानाजी मेश्राम (कर्जदार/बंधककर्ता) मकान नंबर 121 ग्राम समनापुर, तहसील और जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश, 481111. (2) सौरभ मेश्राम पुत्र राजेंद्र मेश्राम (सह कर्जदार/गारंटर 1) वार्ड क्रमांक 07 ग्राम समनापुर, तहसील एवं जिला. बालाघाट, मध्य प्रदेश, 481105, (3) राहुल मेश्राम पुत्र राजेंद्र मेश्राम (सीओ कर्जेदार/गारंटर 2) वार्ड नंबर 07 ग्राम। समनापुर, तहसील एवं जिला. बालाघाट, मध्य प्रदेश, 481105, साथ ही: (संपत्ति पता 1) बालाघाट (वार्ड क्रमांक 02 बालाघाट), तहसील और जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश।

ऋण खाता संख्या: 919030021340110 एवं 919030021340097 मांग सूचना दिनांकः 18/01/2024

15/01/2024 को (रुपये इक्कीस हजार एक . गौ बहत्तर एवं उनतीस पैसे मात्र) तथा रु. 785030/-(रुपये सात लाख पचासी हजार तीस मात्र)

15/01/2024 को

₹. 73,62,280.50

(रुपये तिहत्तर लाख

बासठ हजार दो सौ

अस्सी एवं पचास पैसे

मात्र)

आवासीय संपत्ति का समस्त भाग जिसका क्षेत्रफल 2130 वर्ग फुट बालाघाट (वार्ड क्रमांक 02 बालाघाट) में स्थित, खसरा क्रमांक 248/1/3179, 248/14/31/9 (पराने खसरा क्रमांक 248/1/3171 248/14/31/1 का भाग), पी.एच. क्रमांक 13/2, आरएनएम बालाघाट-2, प्लॉट क्षेत्रफल 0.020 हेक्टेयर/2130 वर्ग फीट तहसील एवं जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। राजेंद्र पत्र नानाजी मेश्राम के नाम पर, सीमाएँ:-पूर्वः बंगाली का मकान, पश्चिमः बंगाली का मकान, उत्तरः बंगाली का प्लॉट, दक्षिणः 23 फीट चौड़ी सड़क

. बाहिद खान पुत्र चेतर खान के नाम पर। सीमाएँ इस प्रकार है

आरआई-छतरपुर में 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाली आवासीय

संपत्ति का समस्त भाग मकान नंबर-४१४ वार्ड नंबर-३९

चेतिगरी मार्ग नगर पालिका क्षेत्र छतरपुर तहसील एवं जिला-

इतरपुर मध्य प्रदेश। सविता अवस्थी पत्नी कमलेश अवस्थी वे

नाम पर। सीमाएँ: - पूर्वः सड़क 20 फीट, पश्चिमः तिवारी जी का घर, उत्तरः गुप्ता जी की भूमि, दक्षिणः त्रिवेदी जी का प्लॉट।

884.6 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली भूमि का समस्त भाग, वार्ड नंबर 5, नगर कुरावर नगर परिषद कुरावर तहसील नरसिंह सर्वे नंबर 656/2, कुरावर, कालापीपल रोड, नरसिंहगढ़, राजगढ़, मध्य

प्रदेश, 465667 में स्थित है। पार्वती बाई के नाम पर, सीमाएँ:

। पर्वः करावर से कालापीपल रोड पश्चिमः नरेंद्र नगर का घर

उत्तरः ओमप्रकाश सोनी का घर दक्षिणः लाल मोहम्मद का घर

संपत्ति 1: वाणिज्यिक भुखंड का समस्त भाग जिसका क्षेत्रफल 3550 वर्ग मीटर है, संव

नंबर 1970/1/3/2 क्षेत्रफल 0.355 हेक्टेयर से डायवर्जन भूमि के पश्चिमी तरफ स्थित

बड़नगर जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश के कस्बा बड़नगर में स्थित, आमीन खान पुत्र रजक

खान के नाम पर। सीमाएँ:-पूर्वः नई डायवर्जन रोड और गिरधारी पुत्र रतनलाल की भूमि पश्चिमः नंदराम पुत्र रतनलाल की भूमि उत्तरः महेश पुत्र हीरालाल की भूमि दक्षिण

संपत्ति 2: वाणिज्यिक भूखंड का समस्त भाग क्षेत्रफल 581.70 वर्ग फुट, मकान नंबर 22

पर स्थित, वार्ड नंबर 1, सब्जी मार्केट वाली गली, बड़नगर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश पर

स्थित, नईम पुत्र रजक मुसलमान के नाम पर सीमाएँ:- पूर्वः गीताबाई का घर, पश्चिम

आम गलियारा, उसके बाद लालू दा का घर, उत्तरः सड़क दक्षिणः करीम के नाम पर घ

(1) राजेश कुमार पांडे पुत्र देवशरण पांडे (कर्जदार) वार्ड नंबर 13, श्रीदेव मोहुल्ला छोटा बाजार पिछोर पिछोर 🕏 ४,70,806.99/- (रुपये क्षेत्रफल 0.320 हेक्टेयर (34449 वर्ग फीट) का समस्र डबरा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, 475110. (2) लक्ष्मी देवी पांडा पत्नी देवशरण पांडा (बंधक/गारंटर 1) वार्ड नंबर चार लाख सत्तर हजार आठ सौ छः एवं निन्यानबे पैसे 13, पिछोर डबरा, ग्वालियर, डबरा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, 475110।(3) सुरेश कुमार पांडा पुत्र नंद कुमार पांडा (सीओ कर्जदार/गारंटर 2) तहसील के पास, छोटा बाजार, पोस्ट पिछोर, डाबर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, 475110. (4) देवशरण पांडा पुत्र नंद कुमार पांडा (सीओ कर्जदार/गारंटर 3) पिछोर, वार्ड नंबर 13, डाबर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, 475110 साथ ही: (संपत्ति पता 1) सर्वे नंबर 1486, राजस्व ग्राम पिछोर, ग्राम पिछोर, तहसील डबरा, जिला-ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ऋण खाता संख्याः 918030042043417 एवं 918030042043433 मांग सुचना दिनांक: 18/01/2024

एनपीए की तिथि: 23/09/2023

एनपीए की तिथि: 01/11/2023

मात्र) एवं रु.1,17,856.76/- (रुपये एक लाख संत्रह हजार . आठ सौ छप्पन और छिहत्तर पैसे मात्र) 15/01/2024 तक

पच्चीस मात्र) (इस राशि में

02-12-2023 तक लागू ब्याज

शामिल है)

02-12-2023 तक

रु. 403/- (रुपये चार सौ तीन

मात्र) एवं रु. ९,०६,२६३/- (रुपये

नौ लाख छह हजार दो सौ तिरसठ

मात्र) कल रु. 9.06.666/- (रुपये

नौ लाख छह हजार छह सौ छियासठ

मात्र) (इस राशि में 02-12-2023

तक लागू ब्याज शामिल है)

पिछोर, तहसील डबारा, जिला-ग्वालियर, मध्य प्रदेश म स्थित, श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री देव शरण के नाम पर सीमाएँ:-पूर्वः पप्पू मोदी की घर संपत्ति, पश्चिमः रोड पीडब्ल्यडी (भागेह मार्ग) उत्तरः श्री सेवाराम बघेल की घर संपत्ति, दक्षिणः रोड पीडब्ल्युडी (नवोदय विद्यालय

पीएच नंबर 22, सर्वे नंबर 1206/मेन-6, वार्ड नंबर 1

तहसील आरोन, जिला गुना (म.प्र.) में स्थित अचर

संपत्ति के समस्त भाग का इक्विटेबल बंधक। आकार-

1200 वर्ग फीट। 1 - श्री राकेश सिंह पुत्र मोहन सिंह

पश्चिम:- गजेंद्र गिरी का बाड़ा, उत्तर:- फलवान सिंह

रघुवंशी का घर, दक्षिण:- श्रीमती वीना श्रीमाल का घर

पर्वे नंबर 64/1. फोन नंबर 50 नया 102. वार्ड नंबर 1

भाग, सर्वे क्रमांक 1486, राजस्व ग्राम पिछोर, ग्रा

10 1-श्री राकेश सिंह पुत्र मोहन सिंह रघुवंशी पता-1) मकान नंबर 11, ग्राम बुढ़ाखेड़ा तहसील-आरोन जिला रु. 4,17,992/- (रुपये चार लाख गुना (म.प्र.) पिनकोड-473101, 1-श्री राकेश सिंह पुत्र मोहन सिंह रघुवंशी पता-2) पी.एच नंबर 22, सत्रह हजार नौ सौ बानवे मात्र) एवं सर्वे नंबर 1206/मेन-6, वार्ड नंबर 11, तहसील आरोन, जिला गुना (म.प्र.) (कर्जदार) 2-श्री भानु सिंह रु. 24.45.733/- (रुपये चौबीस लाख पैंतालीस हजार सात सौ तैंतीस पुत्र मोहन सिंह रघुवंशी पता-1) मकान नंबर 11, ग्राम बुढ़ाखेंड्रा तहसील-आरोन जिला गुना (म.प्र.) मात्र) कुल रु. 28,63,725/- (रुपये रघुवंशी 2 - श्री भानु सिंह पुत्र मोहन सिंह रघुवंशी के पिनकोड -473101, 2-श्री भानु सिंह पुत्र मोहन सिंह रघुवंशी पता-2) पी.एच नंबर 22, सर्वे नंबर अट्टाईस लाख तिरसट हजार सात सौ नाम पर। सीमाएँ इस प्रकार हैं। पूर्वः- आम रास्ता, 1206/मेन-6, वार्ड नंबर 11, तहसील आरोन, जिला गुना (म.प्र.) 3-श्रीमती मुन्नी बाई पत्नी श्री मोहन सिंह रघुवंशी पता-1) निवासी-7, ग्राम बुढ़ाखेड़ा तहसील-आरोन जिला गुना (म.प्र.) पिनकोड - 473101 3-श्रीमती मुन्नी बाई पत्नी श्री मोहन सिंह रघुवंशी पता-2) पी.एच नंबर 22, सर्वे नंबर 1206/मेन-6, वार्ड नंबर 11, तहसील आरोन, जिला गुना (म.प्र.) (सह–आवेदक/गारंटर/बंधककर्ता) ऋण खाता संख्या: 916030006309308 एवं 916030006309311

मांग सूचना दिनांक: 15-दिसंबर-2023

एनपीए की तिथि: 01-11-2023 11 | 1- श्री सौरभ पुत्र आनंद कुमार यादव पता-1) 10 नेहरू वार्ड मोहल्ला, बस स्टैंड के पीछे, खंडवा रोड, वार्ड नंबर 6 सनावद, जिला - खरगोन म.प्र. पिनकोड - 451111, 1-श्री सौरभ पुत्र आनंद कुमार यादव

कॉलोनी, सनावद, सनावद, जिला खरगोन पर स्थित (कर्जदार) 2-श्रीमती पुष्पा यादव पत्नी आनंद कुमार यादव पता-1) 10 नेहरू वार्ड मोहल्ला, बस स्टैंड के पीछे, खंडवा रोड, वार्ड नंबर 6 सनावद, जिला-खरगोन म.प्र. पिनकोड-451111 2- श्रीमती पुष्पा यादव पत्नी आनंद कुमार यादव पता-2) आवासीय मकान सर्वे नंबर 64/1, फोन नंबर 50 नया 102, वार्ड नंबर 16, जवाहर मार्ग, पंडित कॉलोनी, सनावद, पर स्थित है। सनावद, जिला खरगोन

पता-2) आवासीय मकान सर्वे नंबर 64/1, पीएच. नंबर 50 नया 102, वार्ड नंबर 16, जवाहर मार्ग, पंडित

(सह-आवेदक/गारंटर/बंधककर्ता) ऋण खाता संख्याः 919030082079606 और 919030082079570 मांग सूचना दिनांक: 15-दिसंबर-2023 एनपीए की तिथि: 01-11-2023

12 (1) मैसर्स माहेश्वरी किराना स्टोर्स (कर्जदार) मेन रोड कुरावर राजगढ़, मध्य प्रदेश, 465667. (2)

02-12-2023 तक रोड. नरसिंहगढ. राजगढ, मध्य प्रदेश, 465667 पर स्थित 884.6 व 15/01/2024 को ₹.30,73,791.27/-(रुपये तीस लाख

जवाहर मार्ग, पंडित कॉलोनी, सनावद, स्थित आवासीय घर की अचल संपत्ति के समस्त भाग का इक्विटेबल बंधक । सनावद जिला खरगोन (म प) में स्थित । माप-450 वर्ग फीट। श्री सौरभ पुत्र आनंद कुमार यादव वे नाम पर। सीमाएँ इस प्रकार हैं। पूर्वः- मायाचंद मालगांव का घर, पश्चिमः- श्री विनोद राम दास का घर, उत्तरः- श्री पुरे पटवारी का घर, दक्षिण:- आम सड़क।

वार्ड नंबर 11, सर्वे नंबर 656/2, कुरावर, कालापीप

पर, नए सर्वेक्षण संख्या 31/8, पुराने सर्वेक्षण संख्या 31/3 पी.एच. क्रमांक 41, पुराना पी.एच. क्रमांक 23, गांव

दामखेड़ा, तहसील एवं ब्लॉक खरगोन, जिला खरगोन

मध्य प्रदेश पर स्थित। मिथलेश महाजन पुत्र कैलाशचं

महाजन के नाम पर। सीमाएँ:-पूर्वः सर्वे नंबर की शेष भूमि,

पश्चिमः श्री मिथलेश महाजन की भूमि, उत्तरः श्री संतो

मारू की कृषि भूमि, दक्षिणः श्री गिरीश पुत्र श्री श्रीराम

. गणेश महेश्वरी पुत्र छोटेलाल महेश्वरी (प्रोपराइटर/गारंटर 1) मेन रोड कुरावर राजगढ़, मध्य प्रदेश, 465667 (3) पार्वती बाई पत्नी गणेश माहेश्वरी (बंधककर्ता/गारंटर 2) मेन रोड कुरावर राजगढ़, मध्य तिहत्तर हजार सात सौ प्रदेश, 465667, साथ ही: (संपत्ति पता 1) वार्ड नंबर 11, सर्वे नंबर 656/2, कुरावर, कालापीपल रोड, नरसिंहगढ़, राजगढ़, मध्य प्रदेश, 465667. ऋण खाता संख्या: 922030030188983 मांग सूचना दिनांक: 18/01/2024 एनपीए की तिथि: 04/11/2023

इक्यानवे और सत्ताईस पैसे मात्र) 13 (1) मिथलेश महाजन पुत्र कैलाश चंद्र महाजन (कर्जदार/बंधककर्ता) मकान नंबर 28, गुरवा दरवाजाजा मार्ग, रु.1,80,093.78/

फीट क्षेत्रफल वाली आवासीय सह वाणिज्यिक संपत्ति का समस्त भाग पार्वती बाई के नाम पर, सीमाएँ:-पूर्वः कालापीपल रोड पश्चिमः नरेंद्र नगर जी का घर उत्तरः ओम प्रकाश सोनी का घर दक्षिणः लात

वाणिज्यिक डायवर्टेंड भूमि और गोदाम गोदाम पर इक्विटेबल बंधव

गावशिंदे की कृषि भूमि।

सिद्धमाता, खरगोन, मध्य प्रदेश, 451001 (रुपये एक लाख अस्सी हजार तिरानवे और (2) पीयूष महाजन पुत्र श्यामसुंदर महाजन (गारंटर 1) मकान नंबर 33, गुरवा दरवाजा मार्ग, सिद्धमाता मंदिर, अठहत्तर पैसे मात्र) एवं खरगोन, मध्य प्रदेश, 451001, ₹.55.52.514.22/-(3) श्याम सुंदर महाजन पुत्र बाबूलाल महाजन (गारंटर 2) मकान नंबर 33, गुरवा दरवाजाजा मार्ग, सिद्धमाता (रुपये पचपन लाख मंदिर, खरगोन, मध्य प्रदेश, 451001. बावन हजार पांच सौ (4) कैलाश चंद महाजन पुत्र बाबूलाल महाजन (गारंटर 3) मकान नंबर 33, गुरवा दरवाजाजा मार्ग, सिद्धमाता चौदह और बाईस पैसे मंदिर, खरगोन, मध्य प्रदेश, 451001

(5) मयूरी महाजन पत्नी पीयूष महाजन (गारंटर 4) मकान नंबर 33, गुरवा दरवाजा मार्ग, सिद्धमाता मंदिर, खरगोन, मध्य प्रदेश, 451001, साथ ही: (संपत्ति का पता) सर्वे नंबर 31/8, पुराना सर्वे नंबर 31/ 3 पी.एच. क्रमांक 41, पुराना पी.एच. क्रमांक 23, गांव दामखेड़ा, तहसील एवं ब्लॉक खरगोन, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। ऋण खाता संख्याः 918030050236223 एवं 918030050236197 मांग सूचना दिनांक: 18/01/2024 एनपीए की तिथि: 13/11/2023

पदि आप ऊपर वर्णित व्यक्ति सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इस नोटिस के संदर्भ में इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर भावी ब्याज और आकस्मिक खर्चों, लागतों के सा

15/01/2024 तक

आपके द्वारा देय उपर्युक्त राशि को चुकाने में विफल रहते हैं तो बैंक सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) और उक्त अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के तहत दिए गए सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा। यह नोटिस बैंक के इस तरह के अन्य कार्यों या कानूनी कार्यवाही शुरू करने के अधिकार पर प्रतिकृल प्रभाव डाले बिना है, जैसा कि यह कानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत

प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लिमिटेड दिनांकः 14.02.2024, स्थानः मध्य प्रदेश